

NAMDEV FINVEST LIMITED **(Formerly known as Namdev Finvest Private Limited)**

Schedule of charges

To,
Namdev Borrowers

Loan Product: Loan against property/Two Wheeler Loan/EV Loan/LCV loan

Schedule of charges agreed to between the Borrower/s named above and Namdev Finvest Limited (Formerly known as Namdev Finvest Private Limited) ("NFL") are as under:

Key Terms of the Loan	
Loan Sanctioned Amount	Rs.
Interest Type (Fixed/Floating or Dual/Special Rate)	Fixed
Purpose of Loan	Case to case
NFL IRR	12% to 40% P.A. for all loan products (case to case)
Tenor	Months (case to case)
EMI Amount	Rs. (case to case)
Number of EMIs	(case to case)
Instalment Type	Monthly/Quarterly/Bullet
Presentation date for EMI/Pre-EMI	5th, 10 th & 15 th of every month
Mode of Repayment	NACH/PDCs
Moratorium or Subsidy	Subject to Eligibility

Note: The Borrower/s shall pay the EMIs and the Pre EMI-Interest (as applicable) regularly on his/her/their own without any reminder or intimation from NFL.

1. Fees and Charges – MSME Loan

Nature of Charge	Amount	Nature of Charge	Amount
(i) On Application		(iii) During The Term of Loan	
Initial Money Deposit (IMD) Non-Refundable	Up to Rs.10,000/- (GST Include)	Loan Cancellation charges	Minimum 2%
(ii) From Disbursement		Cheque/ NACH bouncing Charges	Rs. 500/- per instance+ GST, if applicable
Processing Fee	Up to 5% + GST	Penal Charges for not adhering terms and conditions of Sanction/Agreement)	3% per month on overdue amount
CERSAI And Other Regulatory Charges	Rs.118/- (GST include)	Collection charges (Applicable only in Cases of Collection Executive Visit)	Rs. 590/- (per bucket wise DPD) (GST include)
Legal and vetting report Charges	Rs. 2500 per report (GST include)	Recovery (legal/Possession & Incidental Charges)	As per actuals
Due Diligence Charges	Rs. 2,950/- (GST include)	Statement of Account/ Preclosure/part payment/Foreclosure Statement Charges *	Rs.1180/- per instance (GST Include)
Property Valuation Charges	Rs. 2700 per report (GST include)	Duplicate No dues Certificate	Rs. 1500/- (GST include) per instance
Subsequent Valuation Charges (if Loan More than Rs 25 lakhs)	As per actuals		
Document Charges	As per actuals		
Credit Shield Charges (CPP)	As per actuals		
Property Insurance Charges	As per actuals		

Health Insurance Charges/EMI protection Charges	As per actuals	Part payment/Foreclosure/prepayment charges **pre-payment is not allowed in first 12 month from the date of 1st EMI	Upto 7% of outstanding principal Amount (GST additional)
Stamp Duty Charges	As per actuals	Legal, Collections & Incidental Charges	As per actuals
Document Handling and Maintenance Charge	Rs. 885/- (GST include)	Charges for switching loans from floating to fixed rate and vice versa	NA
RTGS/NEFT Charges	Rs 590/- (GST include) per instance		

*Loan Statement Charges - The Borrower may obtain the Statement of Account (SOA) free of cost once during a financial year. Any additional requests may be subject to applicable charges as prescribed by the Company.

** Pre-payment/Part payment of loan is allowed twice during the entire loan tenure.

2. Fees and Charges – Vehicle Loan

From Disbursement		During the loan tenure	
PARTICULARS CHARGES	Amount	PARTICULARS CHARGES	Amount
Processing Fee	as per actual	Cheque/NACH bouncing charges, if any, in case of delayed payment.	₹ 500/- Per bounce
Documents Charges	as per actual	Cheque Swapping Charges	₹ 500/- per swaps + Applicable Taxes
Loan Suraksha Premium	as per actual	Collection Visit charges	Rs. 250/- + Applicable taxes per visit
Stamp Duty Charges	as per actual	Nach Mandate Rejection Charges	Rs. 250/- plus applicable taxes per NACH mandate disapproval.
Valuation Charges	as per actual	Loan Statement Charges *	Upto ₹ 500/- + Applicable Taxes per instance
RTGS/Bank/NEFT Charges	as per actual	Foreclosure statement charges, if applicable	Upto ₹ 500/- + Applicable Taxes per instance
Non-Post-dated Cheque Charges	Rs 800/-+GST include	Duplicate No Dues certificate	₹ 1000/- + Applicable taxes (per duplicate)
Promotional Code Charges	as per actual	Penal Charge (for not adhering terms and conditions related with loan)	3% per month on overdue amount
Field Investigation Charges	as per actual	Loan cancellation charges	Upto Rs 2000/-+ Applicable taxes
RC extract Charges	as per actual	Prepayment/Partpayment/Foreclosure Charges**	Upto 7% + Applicable Taxes on the principal outstanding
		Repossession Charges (Repossession) Charges may also vary from the mentioned charges, depending on the number of wheels	Upto Rs 25,000/- + Applicable taxes
		Parking Yard charges	Upto Rs 100/- per day + Applicable taxes

		Legal proceeding charges	Minimum Rs 100/- and maximum Rs 12,000+ Applicable taxes.
		Any regulatory/ statutory reporting or other charges	For the fee schedule, please refer to the fee schedule on the company's website or obtain a hard copy from any of our branches.

* Loan Statement Charges - The Borrower may obtain the Statement of Account (SOA) free of cost once during a financial year. Any additional requests may be subject to applicable charges as prescribed by the Company.

**Pre-payment/Part payment of loan is allowed twice during the entire loan tenure.

- Above fee and charges are subject to change and will be at the sole discretion of NFL and any change in charges, would be informed to the customer in writing/email/ SMS.

Note: This Schedule of charges is version 1.0 for the F.Y. 2026-27



नामदेव फिनवेस्ट लिमिटेड

(पूर्व में नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

शुल्क अनुसूची

प्रत्येक के लिए
नामदेव उधारकर्ता

ऋण उत्पाद: संपत्ति पर ऋण/टू व्हीलर ऋण/ईवी ऋण/ एलसीवी ऋण

ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता और नामदेव फिनवेस्ट लिमिटेड (जिसे पहले नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("एनएफएल") के बीच आपके ऋण की शुल्क अनुसूची इस प्रकार हैं:

ऋण की प्रमुख शर्तें	
ऋण स्वीकृत राशि	चेहरा
ब्याज प्रकार (फिक्स्ड/फ्लोटिंग या डुअल/स्पेशल रेट)	स्थायी
ऋण का उद्देश्य	मामले दर मामला
एनएफएल आईआरआर	सभी ऋण उत्पादों के लिए 12% से 40% प्रति वर्ष (मामले द्वारा मामला)
आदमी	महीने (मामले दर मामला)
ईएमआई राशि	रु. (मामले से मामला)
ईएमआई की संख्या	(मामले दर मामला)
स्थापना प्रकार	मासिक/त्रैमासिक/बुलेट
ईएमआई/प्री-ईएमआई के लिए प्रस्तुति तिथि	हर महीने की 5, 10 और 15 तारीख
पुनर्भुगतान मोड	टीओ/पीडीसी
अधिस्थगन या सब्सिडी	पात्रता के अधीन

मुद्रा नोट: उधारकर्ता एनएफएल से किसी भी अनुस्मारक या नोटिस के बिना नियमित रूप से ईएमआई और पूर्व ईएमआई-ब्याज (जैसा लागू हो) का भुगतान करेगा।

1. शुल्क और शुल्क - एमएसएमई ऋण

चार्ज की प्रकृति	कुल राशि	चार्ज की प्रकृति	कुल राशि
(i) आवेदन पर		(iii) ऋण की अवधि के दौरान।	
प्रारंभिक धन जमा (आईएमडी) गैर-वापसी योग्य	रु. 10,000/- तक (जीएसटी शामिल)	ऋण रद्द करने का शुल्क	न्यूनतम 2%
(ii) संवितरण		चेक/NACH बाउंसिंग शुल्क	रु. 500/- प्रति इंस्टेंस + जीएसटी यदि लागू हो
प्रोसेसिंग फीस	5% तक + जीएसटी	दंड शुल्क स्वीकृति/समझौते की शर्तों एवं नियमों का पालन न करने के कारण	अतिदेय राशि पर 3% प्रति माह
CERSAI और अन्य नियामक शुल्क	रु.118/- (जीएसटी में शामिल)	संग्रह शुल्क (केवल संग्रह कार्यकारी यात्राओं के मामलों में लागू)	रु. 590/- (प्रति बाल्टी वार डीपीडी) (जीएसटी सहित)
कानूनी एवं परीक्षण रिपोर्ट शुल्क	रु. 2500 प्रति रिपोर्ट/- (जीएसटी सहित)	वसूली (कानूनी/कब्जा और आकस्मिकता शुल्क)	वास्तविक व्यय के अनुसार
इयू डिलिजेंस शुल्क	रु. 2,950/- (जीएसटी में शामिल)	खाता विवरण/पूर्व-क्लोजर/आंशिक	रु.1180/- प्रति उदाहरण (जीएसटी में शामिल)
संपत्ति मूल्यांकन शुल्क	रु. 2700 प्रति रिपोर्ट/- (जीएसटी में शामिल)		
बाद के मूल्यांकन शुल्क (यदि ऋण 25 लाख रुपये से अधिक है)	वास्तविक व्यय के अनुसार		

दस्तावेज शुल्क	वास्तविक व्यय के अनुसार	भुगतान/फौजदारी विवरण शुल्क *	
क्रेडिट शील्ड शुल्क (सीपीपी)	वास्तविक व्यय के अनुसार	डुप्लिकेट नो ड्यूज सर्टिफिकेट	रु. 1500/- (जीएसटी समावेशी) प्रति उदाहरण
संपत्ति बीमा शुल्क	वास्तविक व्यय के अनुसार	आंशिक भुगतान / ऋण का समयपूर्व समापन / अग्रिम भुगतान शुल्क ** पहली ईएमआई (EMI) की तिथि से प्रारंभिक 12 महीनों तक पूर्व भुगतान (प्री-पेमेंट) की अनुमति नहीं है।	बकाया मूल राशि का 7% तक (जीएसटी अतिरिक्त)
स्वास्थ्य बीमा शुल्क/ईएमआई सुरक्षा शुल्क	वास्तविक व्यय के अनुसार		
स्टाम्प ड्यूटी शुल्क	वास्तविक व्यय के अनुसार	कानूनी, संग्रह और आकस्मिकता शुल्क	वास्तविक व्यय के अनुसार
दस्तावेज प्रबंधन और रखरखाव शुल्क	रु. 885/- (जीएसटी में शामिल)	ऋण को फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में बदलने और इसके विपरीत ऋण को बदलने के लिए शुल्क	लागू नहीं
आरटीजीएस/एनईएफटी शुल्क	रु. 590/- (जीएसटी समावेशी) प्रति उदाहरण		

***ऋण विवरण शुल्क** - उधारकर्ता एक वित्तीय वर्ष में एक बार निःशुल्क खाता विवरण (SOA) प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य अनुरोध पर कंपनी द्वारा निर्धारित लागू शुल्क देय हो सकते हैं।

****ऋण की पूरी अवधि** (लोन टेन्योर) के दौरान पूर्व भुगतान (प्री-पेमेंट) / आंशिक भुगतान (पार्ट पेमेंट) केवल दो बार करने की अनुमति है।

2. शुल्क और शुल्क - वाहन ऋण

संवितरण से		ऋण अवधि के दौरान	
विवरण शुल्क	कुल राशि	विवरण शुल्क	कुल राशि
प्रोसेसिंग फीस	वास्तविक के अनुसार	भुगतान में देरी के मामले में चेक/एनएसीएच बाउंसिंग शुल्क, यदि कोई हो।	रु. 500/- प्रति बाउंस
दस्तावेज शुल्क	वास्तविक के अनुसार	चेक स्वैपिंग शुल्क	रु. 500/- प्रति स्वैप + लागू कर
ऋण सुरक्षा प्रीमियम	वास्तविक के अनुसार	संग्रह यात्रा शुल्क	रु. 250/- + प्रति विज़िट लागू टैक्स
स्टाम्प ड्यूटी शुल्क	वास्तविक के अनुसार	जनादेश अस्वीकृति शुल्क के बाद	रु. 250/- प्लस लागू कर प्रति NACH जनादेश अस्वीकरण.
मूल्यांकन शुल्क	वास्तविक के अनुसार	ऋण विवरण शुल्क *	रु. 500/- तक + प्रति इंस्टैंस लागू टैक्स
आरटीजीएस/बैंक/एनईएफटी शुल्क	वास्तविक के अनुसार	फौजदारी वापसी शुल्क, यदि लागू हो	रु. 500/- तक + प्रति इंस्टैंस लागू टैक्स
नॉन-पोस्ट-डेटेड चेक शुल्क	800 रुपये + जीएसटी में शामिल	डुप्लिकेट नो ड्यूज सर्टिफिकेट	रु. 1000/- + लागू कर (प्रति डुप्लिकेट)
प्रमोशनल कोड शुल्क	वास्तविक के अनुसार	दंडात्मक शुल्क (ऋण से संबंधित शर्तों एवं नियमों का पालन न करने के लिए)	अतिदेय राशि पर 3% प्रति माह

क्षेत्र निरीक्षण शुल्क	वास्तविक के अनुसार	ऋण रद्द करने का शुल्क	रु. 2000 तक + लागू टैक्स
आरसी एक्सट्रैक्ट शुल्क	वास्तविक के अनुसार	पूर्व-भुगतान/आंशिक भुगतान/आपराधिक शुल्क**	7% तक + मूलधन पर लागू कर
		रिकलेमेशन शुल्क (रिकलेमेशन) पहियों की संख्या के आधार पर शुल्क उल्लिखित शुल्कों से भी भिन्न हो सकते हैं	रु. 25,000/- तक + लागू टैक्स
		पार्किंग यार्ड शुल्क	रु. 100/- प्रति दिन तक + लागू टैक्स
		कानूनी कार्यवाही के आरोप	न्यूनतम रु. 100/- और अधिकतम रु. 12,000+ लागू कर.
		कोई नियामक/वैधानिक रिपोर्टिंग या अन्य शुल्क नहीं	शुल्क अनुसूची के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट पर शुल्क अनुसूची देखें या हमारी किसी भी शाखा से हार्ड कॉपी प्राप्त करें।

* ऋण विवरण शुल्क - उधारकर्ता एक वित्तीय वर्ष में एक बार निःशुल्क खाता विवरण (SOA) प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त अनुरोध पर कंपनी द्वारा निर्धारित लागू शुल्क लगाए जा सकते हैं।

**ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान ऋण का पूर्व भुगतान (प्री-पेमेंट) अथवा आंशिक भुगतान (पार्ट-पेमेंट) केवल दो बार करने की अनुमति होगी।"

• उपरोक्त शुल्क और शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं और एनएफएल के विवेकाधिकार पर होंगे और शुल्क में किसी भी बदलाव के बारे में ग्राहक को लिखित रूप में/ईमेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

नोट: यह शुल्क अनुसूची वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संस्करण 1.0 है।

નામદેવ ફિનવેસ્ટ લિમિટેડ

(અગાઉ નામદેવ ફિનવેસ્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી હતી)

સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિયમો અને શરતો (એમઆઇટીસી)

દરેક માટે

નામદેવ ઉધાર લેનાર

લોન પ્રોડક્ટ્સ: પ્રોપર્ટી સામે લોન/ટુ વ્હીલર લોન/ઇવી લોન/એલસીવી લોન

ઉપરોક્ત નામિત ઋણ લેનાર(ઓ) અને નામદેવ ફિનવેસ્ટ લિમિટેડ (અગાઉ નામદેવ ફિનવેસ્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી) ("NFL") વચ્ચે સંમત થયેલ ચાર્જિસની અનુસૂચિ નીચે મુજબ છે:"

લોનની મુખ્ય શરતો	
લોન મંજૂર રકમ	ચહેરો.
વ્યાજનો પ્રકાર (ફિક્સ્ડ/ફ્લોટિંગ અથવા ડ્યુઅલ/સ્પેશિયલ રેટ)	કાયમી
લોનનો હેતુ	કેસ દ્વારા કેસ
એનએફએલ આઈઆરઆર	તમામ લોન પ્રોડક્ટ્સ માટે વાર્ષિક 12% થી 40% (કેસ દ્વારા કેસ)
માણસ	મહિનાઓ (કેસ દ્વારા કેસ)
ઇએમઆઈ રકમ	રૂ. (કેસ ટુ કેસ)
ઇએમઆઈની સંખ્યા	(કેસ દ્વારા કેસ)
સ્થાપન પ્રકાર	માસિક/ત્રિમાસિક/બુલેટ
ઇએમઆઈ/પ્રી-ઇએમઆઈ માટે પ્રેઝન્ટેશન તારીખ	દર મહિનાની 5મી, 10મી અને 15મી તારીખ
પુનઃચૂકવણી સ્થિતિ	TO/PDC
મોરેટોરિયમ અથવા સબસિડી	પાત્રતાને આધિન

ચલણ નોંધ: ઋણ લેનાર એનએફએલ તરફથી કોઈ રિમાઇન્ડર અથવા નોટિસ વિના નિયમિતપણે ઇએમઆઈ અને એક્સ ઇએમઆઈ-વ્યાજ (લાગુ પડતા) ચૂકવશે.

1. ફી અને ચાર્જીસ - MSME લોન

ચાર્જની પ્રકાર	કુલ રકમ	ચાર્જની પ્રકાર	કુલ રકમ
(i) અરજી પર		(iii) લોનની મુદત દરમિયાન.	
ઇનિશિયલ મની ડિપોઝિટ (આઇએમડી) નોન-રિફંડેબલ	રૂ. 10,000/- સુધી (જીએસટી સમાવિષ્ટ)	લોન કેન્સલેશન ચાર્જ	ન્યૂનતમ 2%
(ii) વિતરણ		ચેક/એનએસીએચ બાઉન્સિંગ ચાર્જીસ	રૂ. 500/- પ્રતિ દાખલા + GST જો લાગુ પડે તો
પ્રક્રિયા ફી	5 ટકા સુધી + જીએસટી		

સીઇઆરએસએઆઈ અને અન્ય નિયમનકારી ફી	રૂ. ૧૧૮/- (જીએસટીમાં સમાવિષ્ટ)	મંજૂરી/કરારની શરતો અને નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ દંડાત્મક શુલ્ક	ઓવરડ્યુ રકમ પર દર મહિને 3%
કાનૂની અને વેરિફિકેશન રિપોર્ટ શુલ્ક	₹ 2500 પ્રતિ રિપોર્ટ/- (GST સહિત)	કલેક્શન ફી (કલેક્શન એક્ઝિક્યુટિવ મુલાકાતના કિસ્સામાં જ લાગુ પડે છે)	રૂ. 590/- (પ્રતિ ડોલર મુજબ ડીપીડી) (જીએસટી સહિત)
ડ્યુ ડિલિજન્સ ફી	રૂ. 2,950/- (જીએસટીમાં સમાવિષ્ટ)		
પ્રોપર્ટી વેલ્યુએશન ફી	રૂ. 2700/- પ્રતિ રિપોર્ટ/- (જીએસટીમાં સમાવિષ્ટ)	રિકવરી (કાયદેસર/કબજો અને આકસ્મિક ફી)	વર્તમાન માટે એસ
ત્યારબાદ આકારણી ચાર્જ (જો લોન રૂ. 25 લાખથી વધુ હોય તો)	વર્તમાન માટે એસ	એકાઉન્ટની વિગતો/પ્રી-ક્લોઝર/આંશિક ચુકવણી/ફોરક્લોઝર વિગતો ચાર્જ*	દાખલા દીઠ રૂ. ૧૧૮૦/- (જીએસટીમાં સમાવિષ્ટ)
દસ્તાવેજ ફી	વર્તમાન માટે એસ		
કેડિટ શિલ્ડ ફી (સીપીપી)	વર્તમાન માટે એસ	ડુપ્લિકેટ બાકી લેણાં પ્રમાણપત્ર	દાખલા દીઠ રૂ. 1500/- (જીએસટી સમાવિષ્ટ)
પ્રોપર્ટી ઇન્શ્યોરન્સ ચાર્જ	વર્તમાન માટે એસ	આંશિક ચુકવણી / લોનનું પૂર્વ સમાપન (ફોરક્લોઝર) / પૂર્વ ચુકવણી શુલ્ક** પ્રથમ EMIની તારીખથી શરૂઆતના 12 મહિના સુધી પૂર્વ ચુકવણી (Pre-payment) કરવાની મંજૂરી નથી.	બાકી મુદ્દલ રકમના 7% સુધી (જીએસટી વધારાના)
હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ ચાર્જિસ/ઈએમઆઈ પ્રોટેક્શન ચાર્જિસ	વર્તમાન માટે એસ		
સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચાર્જ	વર્તમાન માટે એસ	કાયદેસર, વસૂલાત અને આકસ્મિક ફી	વર્તમાન માટે એસ
દસ્તાવેજ વ્યવસ્થાપન અને જાળવણી ફી	રૂ. 885/- (જીએસટીમાં સમાવિષ્ટ)	લોનને ફ્લોટિંગમાંથી ફિક્સ્ડ રેટમાં રૂપાંતરિત કરવા માટેના ચાર્જ અને તેનાથી વિપરીત	લાગુ નથી
આરટીજીએસ/એનઈએફટી ચાર્જિસ	દાખલા દીઠ રૂ. 590/- (જીએસટી સમાવિષ્ટ)		

*લોન સ્ટેટમેન્ટ શુલ્ક - ઉધાર લેનાર વ્યક્તિને એક નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન એક વખત ખાતા નિવેદન (SOA) નિઃશુલ્ક મળી શકે છે. ત્યારબાદના કોઈપણ વધારાના વિનંતી પર કંપની દ્વારા નક્કી કરાયેલા લાગુ પડતા શુલ્ક લાગુ થઈ શકે છે.

**લોનની સમગ્ર અવધિ દરમિયાન પૂર્વ ચુકવણી (Pre-payment) અથવા આંશિક ચુકવણી (Part-payment) માત્ર બે વખત કરવાની મંજૂરી છે.”

2. ફી અને ચાર્જીસ - વાહન લોન

વિતરણમાંથી		લોનની મુદત દરમિયાન	
વિગતો ફી	કુલ રકમ	વિગતો ફી	કુલ રકમ


પ્રક્રિયા ફી	વાસ્તવિક મુજબ	વિલંબિત ચુકવણીના કિસ્સામાં ચેક/એનએસીએ ચ બાઉન્સિંગ ચાર્જિસ, જો કોઈ હોય.	₹ 500/- પ્રતિ બાઉન્સ
દસ્તાવેજ ફી	વાસ્તવિક મુજબ	ચેક સ્વેપિંગ ફી	₹500/- પ્રતિ સ્વેપ + લાગુ પડતા કરવેરા
લોન સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ	વાસ્તવિક મુજબ	કલેક્શન ટ્રાવેલ ફી	રૂ. 250/- + મુલાકાત દીઠ લાગુ પડતા કરવેરા
સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચાર્જ	વાસ્તવિક મુજબ	મેન્ડેટ રિજેક્શન ફી પછી	NACH મેન્ડેટ ડિસ્કલેમર દીઠ રૂ. 250/- વત્તા લાગુ કર.
વેલ્યુએશન ફી	વાસ્તવિક મુજબ	લોન વિગતો ફી *	₹ 500/- સુધી + દાખલા દીઠ લાગુ પડતા કરવેરા
આરટીજીએસ/બેંક/એનઈએફટી ચાર્જિસ	વાસ્તવિક મુજબ	ફોરક્લોઝર રિટર્ન ફી, જો લાગુ હોય તો	₹ 500/- સુધી + દાખલા દીઠ લાગુ પડતા કરવેરા
નોન-પોસ્ટ-ડેટેડ ચેક ચાર્જિસ	800 રૂપિયા + જીએસટીમાં સામેલ છે	ડ્રાફ્ટિકેટ બાકી લેણાં પ્રમાણપત્ર	₹ 1000/- + લાગુ પડતો કરવેરો (ડ્રાફ્ટિકેટ દીઠ)
પ્રમોશનલ કોડ ફી	વાસ્તવિક મુજબ	દંડાત્મક ચાર્જ (લોન સંબંધિત શરતો અને નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ)	ઓવરડ્યુ રકમ પર દર મહિને 3%
ફીલ્ડ ઇન્સ્પેક્શન ફી	વાસ્તવિક મુજબ	લોન કેન્સલેશન ચાર્જ	રૂ. 2000 સુધી + લાગુ કર
આરસી અર્ક ચાર્જ	વાસ્તવિક મુજબ	પ્રી-પેમેન્ટ/આંશિક ચુકવણી/ફોજદારી ફી**	7% સુધી + મુદ્દલ પર લાગુ પડતો કર
		રિફલેમેશન ફી (રિફલેમેશન) ફી વ્હીલ્સની સંખ્યાના આધારે ઉલ્લેખિત ચાર્જથી પણ અલગ હોઈ શકે છે	રૂ. 25,000/- + લાગુ પડતા કર સુધી.
		પાર્કિંગ ચાર્જ ફી	રૂ. 100/- પ્રતિ દિવસ સુધી + લાગુ પડતા કરવેરા
		કાનૂની કાર્યવાહીના આક્ષેપો	લઘુત્તમ રૂ. 100/- અને મહત્તમ રૂ. 12,000+ લાગુ કર.
		કોઈ નિયમનકાર/વૈધાનિક રિપોર્ટિંગ અથવા અન્ય ચાર્જ નહીં	ફી શેડ્યૂલ માટે, કૃપા કરીને કંપનીની વેબસાઇટ પર ફી શેડ્યૂલનો સંદર્ભ લો અથવા અમારી કોઈપણ શાખામાંથી હાર્ડ કોપી મેળવો.

* લોન સ્ટેટમેન્ટ ચાર્જ - ઉધાર લેનાર વ્યક્તિને એક નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન એક વખત ખાતા નિવેદન (SOA) નિઃશુલ્ક મળી શકે છે. ત્યારબાદના કોઈપણ વધારાના વિનંતી પર કંપની દ્વારા નિર્ધારિત લાગુ પડતા ચાર્જ લાગુ થઈ શકે છે.

**લોનની સમગ્ર અવધિ દરમિયાન પૂર્વ ચુકવણી (Pre-payment) અથવા આંશિક ચુકવણી (Part-payment) માત્ર બે વખત કરવાની મંજૂરી છે."

- ઉપરોક્ત ફી અને ચાર્જ ફેરફારને આધિન છે અને તે એનએફએલની સંપૂર્ણ મુનસફી પર રહેશે અને ફીમાં કોઈ પણ ફેરફાર ગ્રાહકને લેખિત/ઇમેઇલ/એસએમએસ દ્વારા જણાવવામાં આવશે.

નોંધ: આ શુલ્કોની અનુસૂચિ નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે વર્ઝન 1.0 છે.



ਨਾਮਦੇਵ ਫਿਨਵੇਸਟ ਲਿਮਟਿਡ

(ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਫਿਨਵੇਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਐਮਆਈਟੀਸੀ)

ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ
ਨਾਮਦੇਵ ਉਧਾਰਕਰਤਾ

ਲੋਨ ਉਤਪਾਦ: ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਨ / ਦੇ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲੋਨ / ਈਵੀ ਲੋਨ / ਐਲ ਸੀ ਵੀ ਲੋਨ

ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਫਿਨਵੇਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਫਿਨਵੇਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ("NFL") ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ	
ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ	ਚਿਹਰਾ.
ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਫਿਕਸਡ/ਫਲੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਊਲ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਥਾਈ ਰੇਟ)	
ਲੋਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼	ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ
ਐਨਐਫਐਲ ਆਈਆਰਆਰ	ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 12% ਤੋਂ 40% ਸਾਲਾਨਾ (ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ)
ਆਦਮੀ	ਮਹੀਨੇ (ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ)
ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਰਕਮ	(ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ)
ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	(ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ)
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸਮ	ਮਹੀਨਾਵਾਰ / ਤਿਮਾਹੀ / ਬੁਲੇਟ
ਈਐਮਆਈ/ਪ੍ਰੀ-ਈਐਮਆਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਤਰੀਕ
ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ	ਟੀ.ਓ./ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.
ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ	ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ: ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ NFL ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਮਾਈਡਰ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਈਐਮਆਈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਈਐਮਆਈ-ਵਿਆਜ (ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1. ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ - ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੋਨ

ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਕੁੱਲ ਰਕਮ	ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਕੁੱਲ ਰਕਮ
(i) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ		(iii) ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ.	
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਆਈਐਮਡੀ) ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ	10,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ (ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ)	ਲੋਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ	ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2%
(ii) ਵੰਡ		ਚੈੱਕ/ਐਨਏਸੀਐਚ ਬਾਊਂਸਿੰਗ ਖਰਚੇ	500/- ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਹਰਨ + ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ	5% ਤੱਕ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.		

CERSAI ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਨਿਯਮਕ ਫੀਸਾਂ	118/- ਰੁਪਏ (ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ)	ਮੰਜੂਰੀ/ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਚਾਰਜ	ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3%
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰਜਜ਼	₹ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ/- (GST ਸਮੇਤ)	ਵਸੂਲੀ ਫੀਸ (ਕੇਵਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)	590/- (ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਡੀਪੀਡੀ) (ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ)
ਬਕਾਇਆ ਮਿਹਨਤ ਫੀਸ	₹ 2,950/- (ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ)		
ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ	₹ 2700/- ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ/- (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)	ਰਿਕਵਰੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ/ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੀਸ)	ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ S
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਖਰਚੇ (ਜੇ ਲੋਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ)	ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ S	ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ/ਪ੍ਰੀ-ਕਲੋਜ਼ਰ/ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ/ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਵੇਰਵੇ ਖਰਚੇ	1180/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਹਰਣ (ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ)
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੀਸ	ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ S	*	
ਕਰੈਡਿਟ ਸ਼ੀਲਡ ਫੀਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.)	ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ S	ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਕਾਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ	ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1500/- (ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ)
ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ	ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ S	ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ / ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਪਨ (ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ) / ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਲਕ**ਪਹਿਲੀ EMI ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ (ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"	ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ 7% ਤੱਕ (ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ/ਈਐਮਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ	ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ S		
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਖਰਚੇ	ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ S	ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੀਸ	ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ S
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਫੀਸ	885/- (ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ)	ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ	ਖਾਲੀਪਨ
ਆਰਟੀਜੀਐਸ / ਐਨਈਐਫਟੀ ਖਰਚੇ	ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 590/- (ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ)		

* ਲੋਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜਜ਼ - ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਤਾ ਬਿਆਨ (SOA) ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗੂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

**ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ (ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ) ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ (ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ) ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।"

2. ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ - ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਾ

ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ		ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ	
ਵੇਰਵੇ ਫੀਸ	ਕੁੱਲ ਰਕਮ	ਵੇਰਵੇ ਫੀਸ	ਕੁੱਲ ਰਕਮ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ	ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ	ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ/ਐਨਏਸੀਐਚ ਬਾਊਂਸਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ।	₹ 500/- ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਊਂਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੀਸ	ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ	ਚੈੱਕ ਸਵੈਪਿੰਗ ਫੀਸ	₹500/- ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੈਪ + ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ

ਲੇਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ	ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ	ਯਾਤਰਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ	250/- + ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ
ਸਟੈਪ ਡਿਊਟੀ ਖਰਚੇ	ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ	ਮੈਂਡੇਟ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ	ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ. ਮੈਂਡੇਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ 250 / - ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ.
ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ	ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ	ਲੇਨ ਵੇਰਵੇ ਫੀਸ *	₹ 500/- ਤੱਕ + ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ
ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ./ਬੈਂਕ/ਐਨ.ਈ.ਐਫ. ਟੀ. ਖਰਚੇ	ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ	ਫੋਰਕਲੇਜ਼ਰ ਰਿਟਰਨ ਫੀਸ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	₹ 500/- ਤੱਕ + ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ
ਗੈਰ-ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਖਰਚੇ	800 ਰੁਪਏ + ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ	ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਕਾਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ	₹ 1000/- + ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ (ਪ੍ਰਤੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ)
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਫੀਸ	ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ	ਦੰਡਾਤਮਕ ਚਾਰਜ (ਲੇਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ)	ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3%
ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ	ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ	ਲੇਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ	2000 ਤੱਕ + ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ
ਆਰਸੀ ਆਰਕ ਚਾਰਜ	ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ	ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ/ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ/ਅਪਰਾਧਿਕ ਫੀਸਾਂ**	ਮੁਲਧਨ 'ਤੇ 7% ਤੱਕ + ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
		ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ) ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ	25,000/- + ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੱਕ।
		ਪਾਰਕਿੰਗ ਯਾਰਡ ਫੀਸ	100/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ + ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ
		ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼	ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਪਏ 100/- ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ 12,000+ ਲਾਗੂ ਕਰੇ.
		ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ/ਕਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ	ਫੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫੀਸ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

* ਲੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜਜ਼ - ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਤਾ ਬਿਆਨ (SOA) ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗੂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

** ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ (ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ) ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ (ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ) ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

- ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਐਫਐਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ / ਈਮੇਲ / ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਰਜਨ 1.0 ਹੈ।